

## शिर्डी साईं बाबा कष्ट निवारण मंत्र

कष्टों की काली छाया दुखदायी है, जीवन में घोर उदासी लायी है ।  
संकट को टालो साईं दुहाई है, तेरे सिवा न कोई सहाई है ।  
मेरे मन तेरी मूरत समाई है, हर पल हर शन महिमा गायी है ।  
घर मेरे कष्टों की आंधी आई है,आपने क्यूँ मेरी सुध भुलाई है ।  
तुम भोले नाथ हो दया निधान हो,तुम हनुमान हो तुम बलवान हो ।  
तुम्ही राम और श्याम हो,सारे जग त में तुम सबसे महान हो ।  
तुम्ही महाकाली तुम्ही माँ शारदे,करता हूँ प्रार्थना भव से तार दे ।  
तुम्ही मोहमद हो गरीब नवाज़ हो,नानक की बानी में ईसा के साथ हो ।  
तुम्ही दिगम्बर तुम्ही कबीर हो,हो बुध तुम्ही और महावीर हो ।  
सारे जगत का तुम्ही आधार हो,निराकार भी और साकार हो ।  
करता हूँ वंदना प्रेम विश्वास से,सुनो साईं अल्लाह के वास्ते ।  
अधरों पे मेरे नहीं मुस्कान है,घर मेरा बनने लगा शमशान है ।  
रहम नज़र करो उज्झे वीरान पे,जिंदगी संवरेगी एक वरदान से ।  
पापों की धुप से तन लगा हारने,आपका यह दास लगा पुकारने ।  
आपने सदा ही लाज बचाई है,देर न हो जाये मन शंकाई है ।  
धीरे-धीरे धीरज ही खोता है,मन में बसा विश्वास ही रोता है ।  
मेरी कल्पना साकार कर दो,सूनी जिंदगी में रंग भर दो ।  
ढोते-ढोते पापों का भार जिंदगी से,में गया हार जिंदगी से ।  
नाथ अवगुण अब तो बिसारो,कष्टों की लहर से आके उबारो ।  
करता हूँ पाप में पापों की खान हूँ,ज्ञानी तुम ज्ञानेश्वर में अज्ञान हूँ ।  
करता हूँ पग-पग पर पापों की भूल में,तार दो जीवन ये चरणों की धूल से ।  
तुमने ऊजरा हुआ घर बसाया,पानी से दीपक भी तुमने जलाया ।  
तुमने ही शिरडी को धाम बनाया,छोटे से गाँव में स्वर्ग सजाया ।  
कष्ट पाप श्राप उतारो,प्रेम दया दृष्टि से निहारो ।  
आपका दास हूँ ऐसे न टालिए,गिरने लगा हूँ साईं संभालिये ।  
साईंजी बालक मैं अनाथ हूँ,तेरे भरोसे रहता दिन रात हूँ ।  
जैसा भी हूँ , हूँ तो आपका,कीजे निवारण मेरे संताप का ।  
तू है सवेरा और मैं रात हूँ,मेल नहीं कोई फिर भी साथ हूँ ।  
साईं मुझसे मुख न मोड़ो,बीच मझधार अकेला न छोड़ो ।

आपके चरणों में बसे प्राण है,तेरे वचन मेरे गुरु समान है ।  
 आपकी राहों पे चलता दास है,खुशी नहीं कोई जीवन उदास है ।  
 आंसू की धारा में डूबता किनारा,जिंदगी में दर्द , नहीं गुजारा ।  
 लगाया चमन तो फूल खिलायो,फूल खिले है तो खुशबू भी लायो ।  
 कर दो इशारा तो बात बन जाये,जो किस्मत में नहीं वो मिल जाये ।  
 बीता ज़माना यह गाके फ़साना,सरहदे ज़िन्दगी मौत तराना ।  
 देर तो हो गयी है अंधेर ना हो,फ़िक्र मिले लकिन फरेब ना हो ।  
 देके टालो या दामन बचा लो,हिलने लगी रहनुमाई संभालो ।  
 तेरे दम पे अल्लाह की शान है,सूफी संतो का ये बयान है ।  
 गरीबों की झोली में भर दो खजाना,ज़माने के वली करो ना बहाना ।  
 दर के भिखारी है मोहताज है हम,शहंशाये आलम करो कुछ करम ।  
 तेरे खजाने में अल्लाह की रहमत,तुम सदगुरु साईं हो समरथ ।  
 आये हो धरती पे देने सहारा,करने लगे क्यूँ हमसे किनारा ।  
 जब तक ये ब्रह्मांड रहेगा,साईं तेरा नाम रहेगा ।  
 चाँद सितारे तुम्हे पुकारेंगे,जन्मोजनम हम रास्ता निहारेंगे ।  
 आत्मा बदलेगी चोले हजार,हम मिलते रहेंगे बारम्बार ।  
 आपके कदमों में बैठे रहेंगे,दुखड़े दिल के कहते रहेंगे ।  
 आपकी मर्जी है दो या ना दो,हम तो कहेंगे दामन ही भर दो ।  
 तुम हो दाता हम है भिखारी,सुनते नहीं क्यूँ अर्ज हमारी ।  
 अच्छा चलो एक बात बता दो,क्या नहीं तुम्हारे पास बता दो ।  
 जो नहीं देना है इनकार कर दो,खतम ये आपस की तक़ार कर दो ।  
 लौट के खाली चला जायूँगा,फिर भी गुण तेरे गायूँगा ।  
 जब तक काया है तब तक माया है,इसी में दुखों का मूल समाया है ।  
 सबकुछ जान के अनजान हूँ मैं,अल्लाह की तू शान तेरी शान हूँ मैं ।  
 तेरा करम सदा सब पे रहेगा,ये चक्र युग-युग चलता रहेगा ।  
 जो प्राणी गायेगा साईं तेरा नाम,उसको मुक्ति मिले पहुंचे परम धाम ।  
 ये मंत्र जो प्राणी नित दिन गायेंगे,राहू , केतु , शनि निकट ना आयेंगे ।  
 टाल जायेंगे संकट सारे,घर में वास करें सुख सारे ।  
 जो श्रधा से करेगा पठन,उस पर देव सभी हो प्रस्सन ।  
 रोग समूल नष्ट हो जायेंगे,कष्ट निवारण मंत्र जो गायेंगे ।  
 चिंता हरेगा निवारण जाप,पल में दूर हो सब पाप ।  
 जो ये पुस्तक नित दिन बांचे,श्री लक्ष्मीजी घर उसके सदा विराजे ।  
 ज्ञान , बुधि प्राणी वो पायेगा,कष्ट निवारण मंत्र जो धयायेगा ।  
 ये मंत्र भक्तों कमाल करेगा,आई जो अनहोनी तो टाल देगा ।  
 भूत-प्रेत भी रहेंगे दूर ,इस मंत्र में साईं शक्ति भरपूर ।

जपते रहे जो मंत्र अगर,जादू-टोना भी हो बेअसर ।  
इस मंत्र में सब गुण समाये,ना हो भरोसा तो आजमाए ।  
ये मंत्र साईं वचन ही जानो,सवयं अमल कर सत्य पहचानो ।  
संशय ना लाना विश्वास जगाना,ये मंत्र सुखों का है खजाना ।  
इस पुस्तक में साईं का वास,जय साईं श्री साईं जय जय साईं ।

[www.totalbhakti.com](http://www.totalbhakti.com)